

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अगस्त २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) कर्मचारी चयन आयोग ने माह अगस्त 2021 के दौरान निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की हैं:
 - संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-1), 2020
 - संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर- I), 2020
 - (ii) 23.08.2021 को "ई-एचआरएमएस सिस्टम ओनली" कार्य-प्रणाली का उदघाटन किया गया ।
 - (iii) दिनांक 27.08.2021 को डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा आईएसटीएम में ऑनलाइन सामग्री के निर्माण के लिए डिजिटल लर्निंग लैब का उदघाटन किया गया ।
 - (iv) माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में 01 (एक) संगठन विशिष्ट कार्यक्रम, चार (04) कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम और पांच (05) सीएसएस/सीएसएसएस-सीटीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित कुल 10 (दस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 392 थी ।
 - (v) दिनांक 26.08.2021 की अधिसूचना संख्या 43015/05/2020-स्था.(ख) के माध्यम से श्री हेमंत कुमार पाटिल, आईओएफएस (2002) को पे मैट्रिक्स के स्तर-13 में निदेशक, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए), नई दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल दिनांक 16.08.2021 (अपरान्ह) से शुरू होकर पाँच वर्ष तक के लिए अर्थात् दिनांक 15.08.2026 अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा ।
 - (vi) दिनांक 27 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या 21/2/2018-सीएस । (घ) के माध्यम से चार (04) सीएसएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव (इन-सीटू) के पद पर नियुक्त किया गया ।
 - (vii) सीजीएलई 2018 के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित 930 डीआर एसओ को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया और दिनांक 04.08.2021 के आदेश सं.7/8/2021 सीएस.। (ए) के माध्यम से उन्हें मंत्रालय/विभाग आवंटित किए गए ।
 - (viii) पीईएसबी, डीओपीटी द्वारा निदेशक/सदस्य के 05 (पांच) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए । साथ ही, 10 (दस) चयन बैठकें (04 सीएमडी/एमडी के लिए और 06 निदेशकों के लिए) भी आयोजित की गईं ।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी किए गए:-
- I. दिनांक 13.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/2/2019-स्था (डी) के माध्यम से सीधी भर्ती वाले और पदोन्नति वाले कार्मिकों की वरिष्ठता और तदनुसार उनकी परस्पर वरिष्ठता से संबंधित संशोधित निर्देश जारी किए गए ।
 - II. दिनांक 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) के तहत मंत्रालयों/विभागों के सक्षम प्राधिकारियों को अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अनुरोध/आवेदनों पर कार्रवाई करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए ।